DPN 6737

Title : काक चरित्र व बौद्धस्तुत: KĀKA CARITRA WA BAUDDHA TUTAH

Run. No. 7462

Cat. No.

Micro. No.

Subject Palmistry and Buddhist Hymn. ✓

Religion : Hindu / Bauddha

Language : Skt. / New. / Nep. / Skt.✓- New. / Maith.- New. / New.- Nep. /

Size in cms. 21 × 8

Folios 10

Lines (in a page) 7

Compl. / Inco✓mpl.

Chapt. / act /

Author / translator

Scribe / donor

Date: NS / SS / VS / KS

Ruler / place

Script : New✓. / Dev. / Bhuj. / Ran. /

Illus. :

Material : palmleaf / paper / thya✓saphu /

Condition : fine / dam✓aged by wor✓ms, ra✓ts, wa✓ter /

Beginning, colophon, post-colophon :

Beg. ॐ नमो बुद्धाय ॥ काक चरितसा ॥ उदय संहा स्वय जुलो ॥ पूर्व दिसा

P.T.O.

सोऽयं हारसा भिग्व ॥ आग्नि दिसा सोऽयं हारसा भिग्व ॥

बौद्ध स्तोत्र (नामसंगीति) -

महावैरोचनो बुद्धो महामौनी महामुनिः
महामन्त्र नयोद्भूतो महामन्त्र नयात्मक ॥ १ ॥

…डु न सा श्री नि जा नि र गु ॥ मा ल न प वि द श्री न सा [illegible] य सा वि त ॥ ज य वा न डु न म [illegible]

वा [illegible] प न नि वे ॥ ल व [illegible] न डु [illegible] या [illegible] व र श गु [illegible] नि या [illegible] न सा । वा [illegible] सा व

या [illegible] यु वा [illegible] सा न डु न सा श्री या न द यु [illegible] ॥ ख व ला पा न डु [illegible] यो वु वु [illegible] य

व ॥ [illegible] सा [illegible] न सः । वा डा या व [illegible] थि द [illegible] या [illegible] द यु [illegible] न ग व डु वा या । [illegible]

द यु वा [illegible] न या म यु या वा [illegible] प य वा वा य [illegible] व वा नि डु वा [illegible]

व का [illegible] न या [illegible] वा न द व ता नि वा [illegible] वा ना [illegible] या व य द यु या [illegible]

[illegible]

॥ ॐ नमो बुद्धाय ॥ काक बलि कर्मा ॥ उदय संहासय रु ला ॥ पूर्व्व दिसा सास्थी ह्रा व सा
कि व ॥ अग्नि दिसा सास्य ह्रा व सा रि व ॥ दक्षिण दिसा सास्य ह्रा व सा रि व ॥ नैऋ
त्य दिसा सा स्य ह्रा व सा लोयनायकं न कयि व ॥ पश्चिम दिसा सास्य ह्रा व सा वाम
यि व ॥ वायव्य दिसा सास्य ह्रा व सा धन मग लक्ष्मी वीधि शयि व ॥ उत्तर दिसा
सास्यं ह्रा व सा रि व ॥ ईशान दिसा सास्य ह्रा व सा मि यु रु य यस्व व ॥ ऊर्द्ध दिसा सा
स्य ह्रा व सा गो उमा य दयि व ॥ १ ॥ २ अथ वधि मय रू व सहानायाया ॥ पूर्व

दिसा सास्यं ह्रा व सा रि ख्व ख ॥ अग्नि दिस सास्यं ह्रा व सा वागायु व ॥ दक्षिण दिस सास्
ह्रा व सा वाजा व विलो धरु यु व ॥ नैऋत्य दिस सासी स्य ह्रा व सा लक्ष्मी वारद यु व ॥ प
श्चिम दिस सास्य ह्रा व सा वाजु वच्छ न रु यु व ॥ वायव्य दीस सास्य ह्रा व सा ज्ञायन
कीयु व ॥ उत्तर दीस सास्य ह्रा व सा अग्नि रुय दयि व ॥ ईशान दिस सास्यं ह्रा
व सा मिख रु यु व ॥ ऊर्द्ध सास्यं ह्रा व सा ज्ञा उमा य दयि व ॥ २ ॥ पत्नी पय
रु सा ॥ पूर्व दिस सास्य ह्रा व सा रि रु व ॥ अग्नि दिस स्य स्यं ह्रा व सा व स रय दयु

वा॥ दक्षिनदिगसा स्यस्हावसा॰ नागा यु व॥ नैअत्यदिगसा स्य स्हावसा॰ कुमिम ति
ह॥ पश्चिमदिगसा स्यस्हावसा॰ वाजमो न्न्य दयुव॥ वायुव्यदिगसा स्य स्हावसा॰ ह
नायदयुव॥ उत्तरदिगसा स्य स्हावसा॰ नवनवगति नमा न्ययाया यु व॥ ईशान
दिगसा स्य स्हावसा॰ खुनखु यिव॥ उर्द्धसा स्य स्हावसा॰ मनमरु यु व॥ ३ ॥
मकुथमरु नमरु म या॥ पूर्वदिसासा स्य स्हावसा॰ नागा यु व॥ आग्नेदिसासा स्य स्हाव
सा॰ नकिमि वादमयि व॥ दक्षिनदिगसा स्य स्हावसा॰ मित्र रुयुव॥ नैर्ऋत्यदिग

सा स्य स्हावसा॰ सरदम्॥ पश्चिमदिगसा स्य स्हावसा॰ विश्वरु शयिव॥ वायुव्यदिसासा स्य
स्हावसा॰ गुरुका न मयिव॥ उत्तरदिगसा स्य स्हावसा॰ पुत्रेवा रुदयिव॥ ईशानदि
गसा स्य स्हावसा॰ मिन शयिव॥ ऊर्द्धदिगसा स्य स्हावसा॰ डल्याने शयिव॥ ४ ॥
ईति वाकयुविद्या सोयसमाप्त॥ ॥ ० ॥ स्हा स्तिका नवव या गुमरु
ता॥ नयलुन स्हास्तिका नवव सा॰ मनन तोयया काज सिद्ध शयिव॥ १ ॥ नित्य
मल वध्य सस्हास्तिका नवव सा॰ रिठवा नवयुव शवा॥ २ ॥ माऊ नयिवसव

वसा॥ कृ न्न न राव याकार्ज सिद्धि रुयुवा॥ ३ ॥ बाङ्गि सववसा॥ ४ रावया गुविकार्य
सिद्ध रोयुवा॥ ५ ॥ नाङ्गि नानख्य ववसा॥ मसिद्ध्यानदयियु॥ ६ ॥ सारुानयि
नसववसा॥ नूगवमड्ढिनिवा॥ ७ ॥ निवानविकाख्यवसववसा॥ यारुानदयि
वस ८ ॥ संन्ध्याकावमववसा॥ मयमान्यदयिव॥ ९ ॥ वायासववसा॥ नय
मान्यदयिव॥ १० ॥ वायानरुमिख्यववसा॥ मवकायदयिवा॥ ११ ॥ वसयाय
न।सामगिदवा १२ ॥ २१ ॥ रुयुसिवुरुावयावदानरुवा॥ क्रानासहानसाधु

नसयोमवायावासक्षवसा॥ सकुनासर्शयिवा॥ दथुयासहावसा॥ मान्यसादर १३
नकुयासहायसा॥ नवनाक्षरुयुवा॥ वानासरुावसा॥ धनरुानिरुयुवा॥ १४ ॥
२ ६ दमामक्षुघायश्वा॥ कोतुमावसा॥ ४ मान्यवायूव॥ मावयमव मवक्षसपानगुमसा॥ मि
विसदरुय॥ सवक्षसवानगुमसा॥ गङ्गानजावनेकायिव॥ बोनयागुमसा॥ नक्षीमाव
दयूव॥ क्षजव॥ खागुमसा॥ घनवालदयूव॥ खवमिखामानसा॥ नुगनयाव्याथिना
सङ्गयूवा॥ मिनामिख्यागुनसा॥ रुखमानरुयूवा॥ क्षासकानसा॥ खवानरुासियिव॥

नव

वयरु थिवा॥ खवाया॥ विंछुकया॥ थयिनेवनमानि वा॥ नसवासजदमिखाउन सा

किडखवथिवा॥ नितायलूवञ्चयसजूयमिखाकुनसाकिड॥ खवमिखाउकया

वदस्ह्यामाञ्जनयिसस्सउवाया॥ ऊवया॥ उकाकिह॥ खवकुनसावादानवथिवा

[illegible] सउमला ऊवकुकिह॥ खवकुकया॥ नयवानाद्यूबासामइलावयूवा॥ सा

क याथेयसवयक्रियाजवमिखाउकाकिह॥ खवमिखाउकया॥ ना॥ श्वदकेवा॥

पि ह्यागाविकावयस ऊवमिखाउनसाकिह॥ खवकुवाया॥ वस्तुवाद्यवा॥ सं

महामोहो मूढधीर्मोहसूदन । महामहामहाकाय महाकायविपुमहा
न् ॥ ५ ॥ महामदमहालोक सर्व्वलोकनिसूदन । महाकामामहासौ
ख्यो महामोदोमहारति ॥ ६ ॥ महारूपोमहाकाया महावर्ण्णम
हावपु । महानामामहोदारो महाविपुलमण्डुले ॥ ७ ॥ महाप्र
ज्ञायुधधरो महाक्लेशांकुशोग्रणी । महायसा महाकिर्त्ति महाज्योति
महाद्युति ॥ ८ ॥ महामायाधरो विद्या महामायार्थसाधक । महामा
यारतिरतो महामायन्द्रिजालिक ॥ ९ ॥ महादानपतिश्रेष्ठो मह

ह्यनेककायन्त ॥ १० ॥ ॐहूंह्रींक्षःश्रीवारिन्द्र वीतनावाङ्जिनद्विय ।न्न
मयात्मानयंवाके ीनिरञ्जनाविलं ॥ ११ ॥ विद्यावलसंयमा सुगः
तोलोकविद्वर । निर्म्ममोनिलहंकाल सत्यद्वयनयस्थित ॥ १२ ॥ संसा
रपारकोटिस्थ कृतकृत्य स्थलेस्थित । कैवल्यज्ञाननिष्ठ्यत प्रज्ञासस्त्रो विदार
ण ॥ १३ ॥ सद्धर्म्मोधर्म्मराड्भास्वान लोकालोककरःपर । धर्म्मेश्वराध
र्म्मराजा श्रेयोमार्ग्गोपदेशक ॥ १४ ॥ सिद्धार्थसिद्धसंकल्पः सर्व्वसं
कल्पवर्ज्जितः । निर्व्विकल्पोक्षयोधातु धर्म्मधातुपरोव्यय ॥ १५ ॥ पुण्यवान्

मूख्यसंहाग्या ज्ञानंज्ञानाकलंमहन् ।ज्ञानवान्सदसज्ञानी संहारानद्वयसं:
भृत ॥ १६ ॥गाम्भिनाविश्वनाथोगी ध्यानध्येयोधियायति ।प्रत्यात्मवे
द्योऽचलः परमाद्यस्त्रिकायधृक् ॥ १७ ॥पञ्चकायात्मकोवुद्धः पञ्च
ज्ञानात्मकोविभु ।पञ्चवुद्धात्ममकुट पञ्चचक्षुनसंगधृक् ॥ १८ ॥ज
नकसर्ववुद्धानां वुद्धपुत्रपरोत्तमः ।प्रज्ञाभवोद्भवायोनि धर्मयोनिभवा
न्तकृत् ॥ १९ ॥घनैकसारोवज्रात्मा सद्योजातोजगत्पति ।गगनोद्
भवस्वयंभू प्रज्ञाज्ञानानलोमहान् ॥ २० ॥वैलोचनोमहादीप्ति ज्ञा:

नर्ज्योतिर्विरोचन ।जगत्प्रदीपोज्ञानोल्का महातेजाप्रभास्वर ॥ २१ ॥
विद्याराजोग्रमंत्रेशो मन्त्रराजोमहार्थकृत् ।महोष्णीषोद्भुतोष्णीषो वि
श्वदर्शीवियत्पति ॥ २२ ॥सर्ववुद्धात्मभावाग्र्यो जगदानंदलोचन ।
विश्वरूपीविधाताच पूज्योमान्योमहर्षिवि ॥ २३ ॥कुलत्रयधरोमन्त्री
धृक् महासमयमंत्रधृक् ।रत्नत्रयःधरःश्रेष्ठ स्त्रियानोत्तमदेशक ॥
२४ ॥अमोघपाशोविजयी वज्रपाशोमहाग्रह: ।वज्राङ्कुशोमहापा
शो वज्रभैरवभीकरं ॥ २५ ॥सर्वविशुद्धधर्मधातुज्ञानगाथा:पञ्च

ङ्गतिः ॥ ॥कायवाङ्चित्तमूर्द्धाग्रीम यमन्तःखड्गजावली ।दंष्ट्राकरा-
लकंकाल हलाहलशतानन ॥ १ ॥यमान्तको विघ्नराजो वज्रवेगाभ-
यंकरः विघुष्टवज्रो हृद्वज्रो मायावज्रोमहोदर ॥ २ ॥कुलिशेशोव-
ज्रयोनि वज्रमण्डानभोपम ।अचलैकजटाटोपो गजचर्मपटार्द्रभृक ॥ ३
॥हाहाकारो महाघोरो हीहीकारोभयानक ।अट्टहासो महाहासो वज्रहा-
सो महारवः ॥ ४ ॥वज्रसत्वमहासत्वो वज्रराजोमहासुख ।वज्रच-
ण्डोमहामोदो वज्रहूंकारहूंकृति ॥ ५ ॥वज्रबाणायुधधरो वज्रखड्ग

निकृन्तन ।विश्ववज्रधरोवज्री एकवज्रीरणञ्जह ॥ ६ ॥वज्रज्वालाकरा-
लाक्षा वज्रज्वालाशिरोरुह ।वज्रावेसामहावेसो शताक्षोवज्रलोचन ॥ ७
॥वज्ररोमाङ्कुरतनु वज्ररोमैकविग्रहः वज्रकोटिनखारंभो वज्रसारघ-
नच्छविः ॥ ८ ॥वज्रमालाधरःश्रीमान वज्राभरणभूषित ।हाहाट्टहास-
निर्घोषो वज्रघोषःषडक्षर ॥ ९ ॥मंजुघोषोमहानाद त्रैलोकैकरवः
महान ।आकाशधातुपर्यन्तं घोषोघोषवतांवरः ॥ १० ॥आदर्शज्ञान-
...यादानसार्द्धदश ॥ ॥तथताभूतनैरात्म्या भूतकोटिरनक्षर

सुनयको वाग्भूधरो गंभीरनादानगर्जन ॥ १ ॥ धर्म्मसंखमहाशब्दो धर्म्म
गण्डीमहानदः । अप्रतिष्ठितनिर्वाणो दशदिग्व्योमदुन्दुभिः ॥ २ ॥ अरू
पो रूपवानाग्र्यो नानारूपो मनोमयः । सर्वरूपावभासश्री अशेषप्रतिबिम्ब
धृक् ॥ ३ ॥ अप्रधृष्यो महेशाख्यो त्रैधातुकमहेश्वरः । समुच्छ्रितार्यमार्गस्थो
धर्म्मकेतुर्महोदयः ॥ ४ ॥ त्रैलोक्यैककुमाराङ्गः स्थविरो वृद्धः प्रजापतिः
द्वात्रिंशल्लक्षणधरः कान्तस्त्रैलोक्यसुन्दरः ॥ ५ ॥ लोकज्ञानगुणाचार्यो
लोकाचार्यो विशारदः । नाथस्त्राता त्रिलोकाप्तः शरणं तायिनिरुत्तरः ॥ ६ ॥

...धराग्रणी । महाक्षान्तिधरो धीरो महावीर्यपराक्रमः ॥ ९ ॥ म
हाध्यानसमाधिस्थो महाप्रज्ञाशरीरधृक् । महाबलो महोपायः प्रणिधिज्ञा
नसागरः ॥ १० ॥ महामैत्रीमयोऽमेयो महाकारुणिकोऽग्रधीः । महाप्र
ज्ञो महाधीमान् महोपायो महाकृतिः ॥ ११ ॥ महर्द्धिबलवेगाढ्यो महाव
गो महाजवः । महर्द्धिको महेशाख्यो महाबलपराक्रमः ॥ १२ ॥ महाभ
वाद्रिभेत्ता च महावज्रधरो घनः । महाक्रूरो महारौद्रो महाभयभयङ्कर
ः ॥ १३ ॥ महाविद्योत्तमो नाथो महामन्त्रोत्तमो गुरुः । महायाननये...

याबूढो महायाननयोत्तमः॥ १५ ॥वज्रधातुमहामण्डलगाथो वज्रदृ
गः॥ ॥महावेलोचनो बुद्धो महामौनी महामुनिः महामन्त्रनयोद्भू
महामन्त्रनयात्मकः॥ १ ॥दशपारमिताप्राप्तो दशपारमिताश्रयः द
[illegible]पारमिताशुद्धि दशपारमितानयः॥ २ ॥दशभूमीश्वरो नाथो दश
भू[illegible]प्रति[illegible]ष्ठितः दशज्ञानविशुद्धात्मा दशज्ञानविशुद्धधृक्॥ ३ ॥
[illegible]कारो दशार्थार्थो मुनीन्द्रो दशबलो विभु ॥अशेषविश्वार्थकरो दशा
[illegible]कारवशी महान्॥ ४ ॥अनादि निष्प्रपंचात्मा शुद्धात्मा तथतात्म